



February 17, 2026

BSE Limited
P J Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001

National Stock Exchange of India Limited
Exchange plaza,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051

Scrip Code: 512599

Scrip Code: ADANIENT

Dear Sirs/Madam(s),

Subject: Intimation – Issue of advertisement in newspapers regarding the notice for payment of outstanding first call money (if any) and second and final call on partly paid-up equity shares of Adani Enterprises Limited (the "Company") pursuant to the rights issue of the Company ("Rights Issue")

In relation to the Rights Issue, we enclose copies of advertisements issued and published by the Company today, i.e. February 17, 2026, regarding the notice for payment of outstanding first call money (if any) and second and final call in (i) all editions of Financial Express (English national daily newspaper with wide circulation); (ii) all editions of Jansatta (Hindi national daily newspaper with wide circulation); and (iii) the Ahmedabad editions of Jai Hind (Gujarati language daily newspaper with wide circulation, Gujarati being the regional language of Ahmedabad, where our Registered Office is situated).

You are requested to kindly take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Adani Enterprises Limited**

Jatin Jalundhwala
Company Secretary & Joint President (Legal)
Membership No. FCS-3064

Encl: as above

Adani Enterprises Limited
"Adani Corporate House",
Shantigram, Near Vaishno Devi Circle,
S. G. Highway, Khodiyar
Ahmedabad 382 421
Gujarat, India
CIN: L51100GJ1993PLC019067

Tel + 91 79 2656 5555
Fax + 91 79 2555 5500
investor.ael@adani.com
www.adanienterprises.com

Registered Office : "Adani Corporate House", Shantigram, Near Vaishno Devi Circle, S. G. Highway, Khodiyar, Ahmedabad - 382421

Continued from previous page.....

2. Non-resident equity shareholders who wish to tender their equity shares in the Target Company in this Offer will be required to submit all the applicable Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI") approvals that they would have obtained for acquiring, the equity shares of the Target Company. In the event such RBI approvals are not submitted, the Acquirers reserves the sole right to reject the equity shares tendered in the Offer.
3. The Acquirers and PACs, in terms of regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations, will have a right not to proceed with the Offer in the event the statutory approvals indicated above are refused. In the event of withdrawal, a PA will be made within 2 working days of such withdrawal, in the same newspapers in which this DPS has appeared.
4. In case of delay in receipt of any statutory approval, the SEBI may, if satisfied that delayed receipt of the requisite approvals was not due to any willful default or neglect of the Acquirers and PACs or failure of the Acquirers and PACs to diligently pursue the application for the approval, grant extension of time for the purpose, subject to the Acquirers and PACs agreeing to pay interest to the shareholders as directed by the SEBI, in terms of regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations. Further, if delay occurs on account of willful default by the Acquirers and PACs in obtaining the requisite approvals, regulation 17(9) of the SEBI (SAST) Regulations will also become applicable and the amount lying in the Escrow Account shall become liable to forfeiture.
5. No approval is required from any bank or financial institutions for this Offer.
- VII. TENTATIVE SCHEDULE OF THE ACTIVITIES PERTAINING TO THE OFFER:

Activity	Date	Day
Public Announcement	10.02.2026	Tuesday
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	17.02.2026	Tuesday
Submission of Detailed Public Statement to BSE, Target Company & SEBI	17.02.2026	Tuesday
Last date of filing draft letter of offer with SEBI	25.02.2026	Wednesday
Last date for a Competing offer	12.03.2026	Thursday
Receipt of comments from SEBI on draft letter of offer	20.03.2026	Friday
Identified date*	24.03.2026	Tuesday
Date by which letter of offer be dispatched to the shareholders	02.04.2026	Thursday
Last date for revising the Offer Price	08.04.2026	Wednesday
Comments from Committee of Independent Directors of Target Company	08.04.2026	Wednesday
Advertisement of Schedule of activities for open offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending to SEBI, Stock Exchange and Target Company	09.04.2026	Thursday
Date of Opening of the Offer	10.04.2026	Friday
Date of Closure of the Offer	24.04.2026	Friday
Post Offer Advertisement	04.05.2026	Monday
Payment of consideration for the acquired shares	11.05.2026	Monday
Final report from Merchant Banker	18.05.2026	Monday

*Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except the Acquirers, PACs, Selling Company, Promoters of Target Company) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.

VIII. PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES IN CASE OF NON RECEIPT OF LETTER OF OFFER:

- All owners of Equity Shares (except the Acquirers, PACs, Selling Company, Promoter of Target Company) whether holding Equity Shares in dematerialized form or physical form, registered or unregistered, are eligible to participate in the Offer any time before closure of the tendering period.
- There shall be no discrimination in the acceptance of locked-in and non-locked-in shares in the Offer. The residual lock-in period shall continue in the hands of the Acquirers. The shares to be acquired under the Offer must be free from all liens, charges and encumbrances and will be acquired together with the rights attached thereto.
- Persons who have acquired the Equity Shares of the Target Company but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date or unregistered owners or those who have acquired the Equity Shares of the Target Company after the Identified Date or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer.
- The Open Offer will be implemented by the Acquirers and PACs through the Stock Exchange Mechanism made available by the Stock Exchange in the form of a separate window ("Acquisition Window") as provided under the SEBI (SAST) Regulations and SEBI Circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 issued by SEBI and as amended by SEBI Circular CFD/DCR/2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016 and as per further amendment vide SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCR-III/ CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 and SEBI's Master Circular dated February 16, 2023, bearing reference number SEBI/HO/CFD/POd1/P/CIR/2023/31 ("Master Circular").
- BSE Limited shall be the designated Stock Exchange for the purpose of tendering shares in the Open Offer.
- The Acquirers have appointed Allwin Securities Limited, Stock Broker for the open offer through whom the purchases and settlement of the Offer Shares tendered under the Open Offer shall be made. The contact details of the buying broker are as mentioned below:

Allwin Securities Limited
B-205/206 Ramji House, 30 Jambulwadi, Kalbadevi, Mumbai- 400002
Tel: +91-22-43446401 E-mail: allwinsec@gmail.com Website: www.allwinsecurities.com
SEBI Registration No.: INZ000239635

- All the shareholders who desire to tender their equity shares under the Open Offer will have to intimate their respective stock brokers ("Selling Brokers") within the normal trading hours of the Secondary Market, during the Tendering period.

- A separate Acquisition Window will be provided by the stock exchange to facilitate placing of sell orders. All the shareholders who desire to tender their equity shares under the Open Offer will have to intimate their respective stock brokers ("Selling Brokers") within the normal trading hours of the Secondary Market, during the Tendering period. The Selling broker can enter orders for dematerialized as well as physical Equity shares.
 - The Letter of Offer along with a form of acceptance cum acknowledgement would also be available at the SEBI website www.sebi.gov.in, and shareholders can also apply by downloading such forms from the said website.
 - No indemnity is needed from unregistered shareholders.
- IX. THE DETAILED PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES IN THE OFFER WILL BE AVAILABLE IN THE LETTER OF OFFER
- X. OTHER INFORMATION:
- The Acquirers, PACs and the Target Company have not been prohibited by SEBI from dealing in the securities under directions issued pursuant to Section 11B or under any other regulations made under the SEBI Act.
 - The Acquirers have appointed Navigant Corporate Advisors Limited as Manager to the Offer pursuant to regulation 12 of the SEBI (SAST) Regulations.
 - The Acquirers have appointed Bigshare Services Private Limited as Registrar to the Offer having office at Office No S6-2, 6th Floor Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai - 400093, India. Tel No.: +91-22-62638200, Website: www.bigshareonline.com; E-mail id: Openoffer@bigshareonline.com; SEBI Registration No.: INR000001385; Contact Person: Maruti Eate.
 - This Detailed Public Statement would also be available at SEBI's website www.sebi.gov.in
 - This Detailed Public Statement is being issued on behalf of the Acquirers and PACs by the Manager to the Offer i.e., M/s. Navigant Corporate Advisors Limited.
 - The Acquirers and PACs accept the full responsibility for the information contained in PA and DPS and also for the obligations of the Acquirers as laid down in the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and subsequent amendments made thereof.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS AND PACS

NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED
804, Meadows, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059.
Tel No. +91 22 4120 4837 / 4973 5078
Email id: navigant@navigantcorp.com
Website: www.navigantcorp.com
SEBI Registration No: INM000012243
Contact person: Mr. Sarthak Vijlani

Place: Mumbai
Date: February 16, 2026

NOTICE
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to inform the General Public that following share Certificates of the Hiliiks Technologies Ltd. Office No. 704, 7th Floor, In Bonaza, Sahar Plaza Co.M.V Road, JB Nagar Metro Station, Andheri (east), Mumbai - 400 059, registered in the name of following shareholders have been lost by them.

Sr No.	Name of the Shareholder	Folio No	Certificate No	Distinctive No	No. of Shares
1	Total Investments Private Limited	651	9000281	599001-604000	5000
2	Total Investments Private Limited	651	9000282	604001-609000	5000
3	Total Investments Private Limited	651	9000283	609001-614000	5000
4	Total Investments Private Limited	651	9000285	615001-620000	5000

The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share Certificates.

Any person who has any claim in respect of the said share certificate should lodge such claim with the company or its Registrar & Transfer Agent Skyline financial Services Pvt.Ltd. D-153A, Okhla Industrial Area, Phase -1, New Delhi-110020 within 15 days of the publication of this notice after which no claim will be entertained and company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate

For Total Investments Private Limited.

Place: Mumbai
Date: 16.02.2026

Sd/-
Padamchand B.Dhoot
Director

Fortis
FORTIS HEALTHCARE LIMITED
Corporate Identity Number: L85110PB1996PLC045933
Registered Office: Fortis Hospital, Sector 62, Phase - VIII, Mohali - 160062, Punjab
Tel.: +91-172-4692222, Fax: +91-172-5096221
Email Id: secretarial@fortishealthcare.com, Website: www.fortishealthcare.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standards on General Meeting issued by the Institute of Company Secretaries of India (SS-2) each as amended and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs for holding general meetings/ conducting postal ballot process, read with various General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs bearing Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023, 09/2024 dated September 19, 2024, 03/2025 dated September 22, 2025, and any other circulars issued from time to time by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (together referred as "MCA Circulars"), the Company has on **Monday, February 16, 2026** completed the electronic transmission of Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form to the Members whose email id's are registered with the Company or with the National Securities Depository Limited ("NSDL")/ Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") ("Depositories") as on Friday, February 13, 2026 for seeking the consent of Members through e-voting as detailed in the Postal Ballot Notice. The Company in order to facilitate shareholders to receive this notice and cast their vote by electronic means (e-voting), has made arrangement with KFin Technologies Limited (formerly known as KFin Technologies Private Limited), Registrar & Share Transfer Agent for registration of email addresses in terms of the MCA Circulars. The process for registration of email addresses and manner of voting by the shareholder holding shares in physical form is detailed in the Postal Ballot Notice. The Company has subscribed to email updation facility from National Securities Depository Limited (NSDL), wherein NSDL have sent messages (SMS) to the shareholders of the Company as per their records on the registered mobile numbers to enable them to register their email ID's.

The Company has appointed Mr. Mukesh Agarwal, Company Secretary in Whole-time Practice (C.P. No. 3851) as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process and also to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. The Voting rights of Members shall be reckoned on the cut-off date i.e. **Friday, February 13, 2026**.

Members are requested to note that facility of voting by electronic means (e-voting) is available to only those members whose name is recorded in the register of members / register of beneficial owners as on the cut off date maintained by the Depositories to participate in the e-voting. A person who is not a member of the Company as on Friday, **February 13, 2026** should receive this notice for information purposes only. Members can cast their e-votes at the website <https://evoting.kfintech.com>. E-voting process through Postal Ballot shall commence from **Tuesday, February 17, 2026**, at 0900 Hours (IST) and end on **Wednesday, March 18, 2026** at 1700 Hours (IST). Postal Ballot form received after 1700 Hours (IST) on **Wednesday, March 18, 2026**, shall not be valid and voting either by post or by electronic means shall not be allowed beyond the said date and the e-voting module shall be forthwith disabled by K-fintech upon expiry of the aforesaid period. The resolution, if approved, shall be deemed to have been passed on the last date of e-voting i.e. **Wednesday, March 18, 2026**. The results of the postal ballot shall be declared on or before **Friday, March 20, 2026**, at the corporate office of the Company at Tower A, 3rd Floor, Unitech Business Park, Block F, South City-1, Sector 41, Gurugram - 122001. The same shall also be hosted on the website of the Company at www.fortishealthcare.com and of K-Fin Technologies Limited at <https://evoting.kfintech.com> and that of National Stock Exchange of India Limited - www.nseindia.com and BSE Limited - www.bseindia.com. In case of non-receipt of Postal Ballot form, a Member can download the Postal Ballot Form from the link <https://evoting.kfintech.com> or www.fortishealthcare.com and obtain a duplicate copy thereof.

Any query or grievance in relation to voting by postal ballot including voting by electronic means may be addressed to Ms. Rajitha C, Vice President, Toll Free Number 1800 309 4001 at einward_ris@kfintech.com at KFin Technologies Limited, Selenium Building B, Plot No-31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Telangana State - India.

For Fortis Healthcare Limited

Sd/-
Satyendra Chauhan
Company Secretary
Membership No.: A14783
Date : February 16, 2026
Place : Gurugram

GOVERNMENT OF TAMILNADU
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
AMENDMENT

The following amendment is issued to this office Tender Notice No. 124/2025-2026/BCMC-1/ CHENNAI Dated: 11.02.2026 for the work of "Construction of 5th to 10th Floor over the proposed 4th Floor of Neuroscience Block in Rajiv Gandhi Government General Hospital, Chennai-3".

Sl.No.	Details	Previously Published	Amendment
1.	Last date for submitting the application for Site Visit Certificate	24.02.2026	20.02.2026
2.	Last date and time for submission of e-tender documents	27.02.2026 upto 3.00 PM	24.02.2026 upto 3.00 PM
3.	Date and time for opening of e-tender	27.02.2026 at 4.00 PM	24.02.2026 at 4.00 PM

All other conditions remains unaltered in Tender Notice

SUPERINTENDING ENGINEER, PWD.,
Building Construction & Maintenance Circle-1,
Chennai, Chennai 600 025

DIPR/1123/TENDER/2026

BENGAL TEA & FABRICS LIMITED

CIN: L51909WB1983PLC036542
Registered Office: Century Towers, 4th Floor, 45 Shakespeare Sarani, Kolkata-700 017, Telephone Nos: (033) 2283-6416/17
E-mail: investor@bengalteea.com, Website: www.bengalteea.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given to the Shareholders ("Members") of Bengal Tea & Fabrics Limited ("Company") that pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") and other applicable provisions, if any, including any statutory amendment(s), modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, the provisions of Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2") and in accordance with General Circular No. 09/2024 dated 19th September, 2024 subsequent circulars issued from time to time, the latest one being General Circular No. 03/2025 dated 22nd September, 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars) and Circulars issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") from time to time and subject to other applicable laws and regulations, the Company has on Monday, 16th February, 2026 completed the dispatch of the Notice of Postal Ballot dated Friday, 06th February, 2026 ("Postal Ballot Notice/Notice") by e-mail only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar & Share Transfer Agent/ Depository Participants as on Friday, 06th February, 2026 ("Cut-off date"), for seeking consent to the following Special Businesses to be transacted by means of Postal Ballot through remote e-voting only:

Item No.	Type of Resolution	Brief Description
1	Special Resolution	1. Appointment of Mr. Arun Jhunjhunwala (DIN: 08249715) as an Independent Director of the Company
2	Special Resolution	2. Appointment of Mr. Amitabh Sonthalia (DIN: 00212312) as an Independent Director of the Company

This Notice is also available on the websites of the Company at www.bengalteea.com and National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com. Further the same has also been uploaded on the websites of BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com. The Company has engaged the services of NSDL for providing remote e-voting facilities to the Members, to enable them to cast their vote electronically and in a secure manner.

In accordance with the provisions of the MCA circulars, hard copy of the Postal Ballot Notice along with postal ballot form and pre-paid business reply envelope has not been sent. The members can vote only through remote e-voting process. The voting rights shall also be reckoned in proportion to the Members shareholding in the paid-up share capital of the Company on the Cut-off date. Once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member will not be allowed to change it subsequently. Any person who is not a shareholder of the Company as on the Cut-off date shall treat the Postal Ballot notice for information purpose only.

The remote e-voting facility would be available during the following period:

REMOTE E-VOTING STARTS ON	REMOTE E-VOTING ENDS ON
Thursday, 19th February, 2026 at 09:00 A.M. (IST)	Friday, 20th March, 2026 at 05:00 P.M. (IST)

Members of the Company holding shares either in physical or dematerialised form, as on the cut-off date, i.e. Friday, 06th February, 2026 are requested to cast their votes through the e-voting process not later than 5:00 P.M. (IST) on Friday, 20th March, 2026 to be eligible for being considered, failing which it will be strictly considered that no vote has been received from them. The e-voting facility will be disabled by NSDL immediately thereafter.

Members are requested to read the Notes (including instructions for remote E-Voting) forming part of the Postal Ballot Notice.

The Board of Directors of the Company ("Board") has appointed Mrs. Swati Bajaj, (CP No. 3502, Membership No. ACS 13216) partner of M/s Bajaj Todi & Associates, Practicing Company Secretaries of 225D, A. J. C. Bose Road, 3rd Floor, Kolkata-700 020 as the Scrutinizers to scrutinize for the remote e-voting in a fair and transparent manner in accordance with the provisions of the Act read with Rules and the MCA Circulars.

The results of Postal Ballot will be declared on or before Sunday, March 22, 2026 by 5:00 P.M. (IST) by the Chairman of the Board or in his absence, by such Director/ KMP of the Company, duly authorised in this regard. The voting results along with the Scrutinizer's Report would be intimated to BSE, where the equity shares of the Company are listed. The same will also be uploaded on the Company's website at www.bengalteea.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Additionally, the results will be placed on the notice board at the Registered Office of the Company.

Any query in relation to the resolution proposed to be passed through Postal Ballot may be addressed to Mr. Himangshu Kedia, Company Secretary & Compliance Officer at investor@bengalteea.com. In case of other queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022-4886 7000 or send a request to Mr. Pritam Dutta, Assistant Manager at pritamd@nsdl.com / evoting@nsdl.com

For Bengal Tea & Fabrics Limited

Sd/-
Himangshu Kedia
Company Secretary
(ICSI Membership No. A25151)
Place : Kolkata
Date : 16.02.2026

This advertisement is for information purposes only and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated November 12, 2025 (the "Letter of Offer" or "LOF"), filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and the stock exchanges, namely BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and together with "BSE", "Stock Exchanges").

adani
ADANI ENTERPRISES LIMITED
Registered and Corporate Office: Adani Corporate House, Shantigram, Near Vaishno Devi Circle, S.G. Highway, Khodiyar, Ahmedabad - 382 421, Gujarat, India.
Tel: +91 79 2555 4412; Contact Person: Jatin Jalundhwala, Company Secretary and Compliance Officer
E-mail: investor.ael@adani.com; Website: www.adanienterprises.com; Corporate Identity Number: L51100GJ1993PLC019067

NOTICE FOR PAYMENT OF OUTSTANDING FIRST CALL MONEY (IF ANY) AND SECOND AND FINAL CALL MONEY TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF ADANI ENTERPRISES LIMITED ("THE COMPANY") AS ON THE SECOND AND FINAL CALL RECORD DATE I.e. FRIDAY, FEBRUARY 13, 2026

The Rights Issue Committee of the Board of Directors of the Company at its meeting held on **Monday, February 9, 2026**, has approved and fixed **Friday, February 13, 2026** as the record date ("**Second and Final Call Record Date**") for the purpose of determining the eligible equity shareholders of partly paid-up equity shares ("**Eligible Shareholders**") to whom the notice for the Second and Final Call (the "**Second and Final Call Notice**"), is being sent. The record date for Second and Final Call Notice has been intimated to the BSE Limited ("BSE") and the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") (together, the "**Stock Exchanges**") on **Monday, February 9, 2026**.

Accordingly, in terms of provisions of Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant rules made thereunder and the Letter of Offer, the notice for reminder to pay the outstanding First Call Money and for payment of the Second and Final Call Money ("**Reminder cum Second and Final Call Notice**") and the Second and Final Call Notice along with the detailed instructions, ASBA form and payment slip, has been sent in electronic mode to the holder of partly paid-up equity shares ("**Eligible Shareholders**") whose e-mail addresses are registered with Company or its Registrar and Transfer Agent ("RTA") or Depository Participant ("DP") as on the Second and Final Call Record Date i.e. **Friday, February 13, 2026**. Further physical copy of Reminder cum Second and Final Call Notice and Second and Final Call Notice along with detailed instructions, ASBA Form and payment slip, have been sent through permitted modes of dispatch at the registered address of those Eligible Shareholders:

- a. who have not registered their e-mail address with the Company or its RTA or Depository Participant(s); or
- b. who have specifically registered their request for the hard copy of the same.

The Company has completed the dispatch of the Reminder cum Second and Final Call Notice and Second and Final Call Notice on Monday, February 16, 2026. The specimen copy of the relevant Notices is also available on the website of the Company at www.adanienterprises.com and on the website of RTA at www.in.mrms.mfug.com

The Second and Final Call Notice has been served as per the details given below:

Amount Due	₹ 450.00 per Rights Equity Share (comprising ₹0.25 towards face value and ₹449.75 towards premium) i.e., 25% of the Issue Price of ₹1,800.00 per Rights Equity Share held by shareholders as on the Second and Final Call Record Date i.e. Friday, February 13, 2026.		
Second and Final Call Payment Period	From	To	Duration
	Monday, March 2, 2026	Monday, March 16, 2026	15 days (both days inclusive)
Modes of Payment	(a) Online ASBA	Through the website of the SCSBs ⁽ⁱ⁾	
	(b) Physical ASBA	By submitting physical application to the Designated Branch of SCSBs ⁽ⁱ⁾	
	(c) Online	Using the 3-in-1 online trading-demat-bank account whenever offered by brokers	
	(d) Deposit of Cheque / Demand Draft with collection centres of State Bank of India (made payable to)	A) ADANI ENTERPRISES LIMITED-RIGHT ISSUE-CALL MONEY ACCOUNT-R * B) ADANI ENTERPRISES LIMITED-RIGHT ISSUE-CALL MONEY ACCOUNT-NR *	

⁽ⁱ⁾ R - Residential shareholders / NR - Non-Residential shareholders

⁽ⁱⁱ⁾ Please visit <https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFriesyes&intmid=35> to refer to the list of existing SCSBs [Self-Certified Syndicate Banks]

In accordance with the SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/POd-1/P/CIR/2024/0154 dated November 11, 2024, Eligible Shareholders can also make the outstanding First Call Money (if any) and Second and Final Call Money payment by using the facility of linked online trading-demat-bank account [3-in-1 type accounts], provided by some of the brokers. Eligible Shareholders must log into their demat account and under the relevant section proceed with the payment for outstanding First Call Money (if any) and Second and Final Call Money of Adani Enterprises Limited. Eligible Shareholders are requested to check with their respective brokers for exact process to be followed. Eligible Shareholders may please note that this payment method can be used only if the concerned broker has made this facility available to their customer. The Company or RTA to the issue will not be responsible for non-availability of this payment method to the shareholders.

In the case Eligible Shareholders choose to pay through cheque / demand draft, the payment slip (stating Full Name of the Sole/First shareholder; Permanent Account Number; Reminder cum Second and Final Call Notice No. / Second and Final Call Notice No. (as applicable); DP ID-Client ID/Folio No.; and No. of partly paid-up equity shares held & total amount payable.) along with the amount payable by cheque or demand draft must be presented at **State Bank of India** branches at the following locations on or before **Monday, March 16, 2026**:

	Ahmedabad: Devashish Complex, Near Popular Domain, Ahmedabad, Gujarat- 380015; Ahmedabad: Bhadra Ahmedabad, Gujarat- 380001; Ahmedabad: Kamdhenu Complex, Panjrapole, Ahmedabad- 380015; Ahmedabad: Sath Sangath Complex, Shivanjani Cross Road, Ahmedabad-380015; Bangalore: #65, St. Marks Road, SBI LHO Compound, Bengaluru, Karnataka- 560001; Baroda: Neha Apartments, R C Dutt Road, Vadodra- 390007; Chandigarh: SCO 99-102, Sector- 8-C, Madhya Marg, Chandigarh- 160008; Chennai: No 1 Anchor Gate Building, Rajaji Salai Chennai, Chennai- 600001; Delhi: 11 Sansad Marg, New Delhi- 110001; Ernakulam: J J Arcade, Desabhimani Junction, Kaloor, Ernakulam- 682017; Hyderabad: Bank Street, Kolt, Hyderabad- 500095; Hyderabad: Patny, Near Secunderabad Hpo, Hyderabad- 500003; Hyderabad: Hyderabad, Abids, Hyderabad- 500001; Jaipur: P.B. No. 72, Sanganeer Gate, Jaipur, Rajasthan- 302003; Jaipur: Post Box No- 94, Sms Highway, Jaipur- 302003; Jaipur: Apex Mall, Tonk Road, Jaipur, Rajasthan- 302015; Jaipur: P.B. 354, Shyam Anukampa, Jaipur, Rajasthan- 302001; Kerala: TC 25/641, Sree Ganesh Krishna, Thiruvandapuram- 695014; Kolkata: Samridhi Bhawan, Kolkata, West Bengal- 700001; Kolkata: Block-C, Samridhi Bhawan, 1, Strand Road, Kolkata- 700001; Mumbai: 3rd Floor, SBI Mumbai Main Branch Building, Fort, Mumbai- 400023; Pune: Collector Office Compound, Dr Ambedkar Road, Pune- 411001; Rajkot: King's Plaza, Astron Chowk, Rajkot, Gujarat- 360001; Surat: Chowk Bazaar, Near Surat Fort, Surat- 395001.
--	---

Please note that Eligible Shareholders who have not paid the First Call Money can pay the First Call Money along with the Second and Final Call Money, between **Monday, March 2, 2026** and **Monday, March 16, 2026** (both days inclusive) through cheque / demand draft, the payment slip (stating Full Name of the Sole/First shareholder; Permanent Account Number; Reminder cum Second and Final Call Notice No.; DP ID-Client ID/Folio No.; and No. of partly paid-up equity shares held & total amount payable.) along with the amount payable by cheque or demand draft must be presented at **State Bank of India** branches at the above locations.

Eligible Shareholders residing at locations where the ASBA facility or Bank's collection centres are not available, may send their outstanding First Call Money (if any) and Second and Final Call Money along with the completed payment slip by registered post/speed post at the office of the Registrar to the Issue: MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited), C-101, Embassy 247, 1st Floor, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Maharashtra, India, Tel No.: +91 810 811 4949, stating the requisite details along with Cheque/Demand Draft payable at Mumbai, such that the same are received on or before the last date of payment of the Second and Final Call Money i.e. **Monday, March 16, 2026**.

Eligible Shareholders are required to make payment of the outstanding First Call Money (if any) and Second and Final Call Money on or before **Monday, March 16, 2026**. Please also note the consequences of failure to pay outstanding First Call Money (if any) and Second and Final Call Money are given below:

- (a) The Company shall be entitled to deduct from any future dividend payable to you, all sums of money outstanding on account of calls due thereon in relation to the partly paid-up equity shares of the Company; and
- (b) The partly paid-up equity shares of the Company currently held by you, including the amount already paid thereon may be liable to be forfeited on failure to pay the First Call Money and Second and Final Call Money, in accordance with the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer.

Eligible Shareholders may also note that:

મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે વિપક્ષી દળો પર આકરા પ્રહારો કર્યા

આ લોકો રામ મંદિર અને કાશી વિશ્વનાથ ધામનો વિરોધ કરતા હતા

લખનૌ, તા. ૧૬ ઉત્તર પ્રદેશ વિધાન પરિષદમાં સોમવારે રાજ્યપાલના અભિભાષણ પર ચર્ચા દરમિયાન મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે વિપક્ષી દળો પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, પાછલી સરકારોએ ઉત્તર પ્રદેશને અરાજકતા અને અવ્યવસ્થાનો ગઢ બનાવી દીધો હતો, પરંતુ આજે ડબલ એન્જિન સરકારની સ્પષ્ટ નીતિ અને સુશાસનના કારણે રાજ્ય બીમાર રાજ્યની શ્રેણીમાંથી બહાર આવીને બ્રેકથ્રૂ સ્ટેટ બન્યું છે.

આદિત્યનાથે વધુમાં કહ્યું કે, ‘ઉત્તર પ્રદેશ હવે ફિયર ઝોનમાંથી ફેથ ઝોનમાં બદલાઈ ગયું છે. હવે કર્ફ્યુ કલ્ચરનો નહીં, પણ ઝીરો ટોલરન્સનું કલ્ચર છે. હવે ફેસ્ટિવલ એન્ડ ટેમ્પલ ઈકોનોમી ગ્રોથ કરી રહી છે. કોઈએ વિચાર્યું પણ નહીં હોય કે અગાઉ માધ મેળામાં

ઉત્તર પ્રદેશ હવે ફિયર ઝોનમાંથી ફેથ ઝોનમાં બદલાઈ ગયું છે. હવે કર્ફ્યુ કલ્ચરનો નહીં, પણ ઝીરો ટોલરન્સનું કલ્ચર છે : યોગી આદિત્યનાથ

કેટલાક લાખ જ શ્રદ્ધાળુઓ આવતા હતા, ત્યારે હવે ૨૧ કરોડથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યા છે, કારણ કે તેમને સુરક્ષા-વ્યવસ્થા પર વિશ્વાસ છે.’ રોજગારના મુદ્દે વિગતો આપતા મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, ‘પોલીસ વિભાગમાં ૨.૧૯ લાખ ભરતીઓ કરવામાં આવી છે, જેમાં ૨૦ ટકા દીકરીઓ છે. ૨૦૧૭માં યુપી પોલીસમાં માત્ર ૧૦,૦૦૦ મહિલા કર્મચારીઓ

હતી, જેની સંખ્યા આજે વધીને ૪૪૦૦૦થી વધુ થઈ ગઈ છે. આ ઉપરાંત અગાઉ માત્ર ૨ ફોરેન્સિક લેબ હતી, જેની સામે આજે ૧૨ લેબ કાર્યરત છે અને અન્ય ૬ નિર્માણાધીન છે. અગાઉની સરકારે પીએસીને બંધ કરવાની સ્થિતિ પર પહોંચાડી દીધું હતું, આજે ૩૪ વાહિનીઓ કાર્યરત છે, જેમાં ૩ નવી મહિલા બટાલિયનનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, ‘વંદે માતરમ ભારતની આન-બાન-શાનનું પ્રતીક છે. રાષ્ટ્રગીત, રાષ્ટ્રીય નાયકો અને ત્રિરંગાનું અપમાન એ બંધારણની અવગણના છે.

સમાજવાદી પાર્ટીના સભ્યો વંદે માતરમનું અપમાન કરી રહ્યા છે, જે બંધારણ અને બાબા સાહેબ આંબેડકરનું અપમાન છે. સપા રામ મંદિર, કાશી વિશ્વનાથનો વિરોધ કરે છે, જ્યારે ગાઝીના મેળાનું સમર્થન કરે છે. અમારી સરકારે બહારાઈયમાં મહારાજા સુહેલદેવના નામે ભવ્ય સ્મારક બનાવ્યું છે, જે હિન્દુ રાજાઓના શૌર્યનું પ્રતીક છે.’

આસામના મુખ્યમંત્રી વિરૂદ્ધ હેટ સ્પીચ મામલે થયેલી અરજી સુપ્રીમ કોર્ટે ફગાવી

નવી દિલ્હી, તા. ૧૬ આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમાએ તાજેતરમાં જ એક મોટો વિવાદ ઉભો કર્યો હતો. આસામ ભાજપે સરમાનો રાયફલ સાથેનો અને બે લોકો પર ગોળી ચાલતો એક વીડિયો શેર કર્યો હતો. ત્યારે આ મામલો સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યા બાદ કોંગ્રેસ તમામ અરજીઓ સાંભળવાનો ઈનકાર કરી દીધો છે.

ન્યાયાધીશ જોયમાલ્યો ભાગથી અને ન્યાયાધીશ નિપુલ એમ.પંચોલીની બંને કહ્યું કે, દરેક ચૂંટણી વિવાદ સીધો જ સુપ્રીમ કોર્ટમાં લઈ જવો, તે એક ચિંતાજનક બાબત બની ગઈ છે. કોર્ટે ટિપ્પણી કરી છે કે, તમે ગુવાહાટી હાઈકોર્ટમાં કેમ ન ગયા? તમે હાઈકોર્ટની સત્તાને પોતાની ન આંકો. સાથે જ કોંગ્રેસે હુલાહાટી હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશને આ મામલાની ઝડપી સુનાવણી કરવા વિનંતી કરી છે.

અભિષેક મનુ સિંઘવીએ દલીલ કરી હતી કે, મુખ્યમંત્રી વારંવાર વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપતા રહે છે, તેથી સુપ્રીમ કોર્ટે કેસને ગંભીરતાથી લઈ અને તેમાં હસ્તક્ષેપ કરવો જોઈએ. સુપ્રીમ કોર્ટે ચિંતા વ્યક્ત કરીને કહ્યું કે, કેરળની આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈ અનેક રાજકીય મુદ્દાઓ કોર્ટ સુધી પહોંચી રહ્યા છે, જે યોગ્ય નથી.


હરિયાણાના છયાંસા ગામમાં ફેલાઈ રહી છે એક રહસ્યમય બિમારી

ચંદીગઢ, તા. ૧૬ હરિયાણાના પલવલ જિલ્લાના છયાંસા ગામના લોકો માટે એક રહસ્યમય બીમારી ચિંતાનું કારણ બની ગઈ છે. છેલ્લા ૧૫ દિવસમાં ૧૨ લોકોના મોત થયા છે. તેમાં ૧૨ લોકોના મોત બાળકો, યુવાનો અને વૃદ્ધોનો સમાવેશ થાય છે. અચાનક થયેલા મૃત્યુથી સમગ્ર ગામમાં ભયનું વાતાવરણ સર્જાયું છે.

દર્દીઓની હાલત એટલી બગડી ગઈ કે તેમને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા, પરંતુ તેમના જીવ બચાવી શકાયા નહીં. આશ્ચર્યજનક રીતે, થોડા દિવસોમાં ઘણા લોકો ગંભીર રીતે બીમાર પડી ગયા. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, આરોગ્ય વિભાગની ટીમો ગામમાં કેમ્પ લગાવીને તપાસ કરી રહી છે.

ગ્રામજનોના જણાવ્યા મુજબ, શરૂઆતમાં કેટલાક લોકોએ ખૂબ તાવ, ઉપરસ, ઉલટી, શરીરમાં દુખાવો અને નબળાઈની ફરિયાદ કરી હતી. કેટલાક

અત્યાર સુધીમાં ૪૦૦થી વધુ લોકોની તપાસ કરવામાં આવી છે, અને આશરે ૩૦૦ લોકોના લોહીના નમૂના લેવામાં આવ્યા છે.



APOLLO

Your Dependable Partner

GUJARAT APOLLO INDUSTRIES LTD.

CIN No. L45202GJ1986PLC009042

Registered Office : Block No. 486, 487, 488, Mouje Dholasan, Taluka & District: Mehsana - 382732.

Corporate Office : The Capital 2, Office no 1403-1405, 14th Floor, Nr. Science City, Science City Road, Sola, Ahmedabad. Ph: 7945025438. Web: www.apollo.co.in

EXTRACT OF THE STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED ON 31ST DECEMBER 2025

(₹ in Lakhs except earning per share data)

Sr No	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		QUARTER ENDED	NINE MONTH ENDED	YEAR ENDED	QUARTER ENDED	NINE MONTH ENDED	YEAR ENDED
		31.12.2025	31.12.2025	31.03.2025	31.12.2025	31.12.2025	31.03.2025
		Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operations	1,190.13	3,436.42	3,426.53	2,286.84	6,111.77	7,023.22
2	Net Profit for the period (before exceptional items and Tax)	(117.39)	113.96	345.44	27.48	495.75	614.66
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional)	(117.39)	113.96	345.44	27.48	495.75	614.66
4	Net Profit for the period after tax	(83.13)	213.41	162.41	22.04	340.03	147.07
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(83.13)	213.41	153.53	(76.57)	469.71	116.06
6	Paid-up equity share capital (face value of ₹. 10/- each)	1,297.00	1,297.00	1,180.00	1,297.00	1,297.00	1,180.00
7	Other Equity (excluding revaluation reserve)			22,884.26			47,897.34
8	Earnings per share (for continuing operations)						
	Basic (₹.)	(0.68)	1.76	1.38	0.51	3.40	1.99
	Diluted (₹.)	(0.68)	1.76	1.38	0.51	3.40	1.98

Note: The above is an extract of the detailed format of quarterly /nine month ended financial results filed with the stock exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly /nine month ended financial results is available on the company website at www.apollo.co.in and on the BSE website at www.bseindia.com & NSE website at www.nseindia.com.

For and on behalf of Board of Directors

GUJARAT APOLLO INDUSTRIES LIMITED

Asit A. Patel - Managing Director DIN : 00093332

Date : 14-02-2026

Place : Ahmedabad



નવી દિલ્હીમાં ભારત મંડપમ ખાતે આજથી શરૂ થયેલા વિશ્વના સૌથી મોટા ઈન્ડિયા એઆઈ ઈમ્પેક્ટ સમિટ: ૨૦૨૬ના પ્રથમ દિવસે મુલાકાતીઓનો ભારે ધસારો થયેલો નજરે પડે છે.

હેલ્પલાઈન નંબરો પણ જાહેર ‘ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય’ યોજનામાં હવે ઘરે બેઠા સહાયની રકમ મળશે

નવી દિલ્હી, તા. ૧૬ મહિલાઓને વિધવા આત્મનિર્ભર બનાવવા અમલમાં આવેલી ‘ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજના’ હેઠળ હવે સહાયની રકમ સીધી ઈન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંક (IPPB)ના ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે. આ નવી વ્યવસ્થાથી લાભાર્થીઓને આધાર આધારિત ડી.બી.ટી (DBT) દ્વારા નાણાં સીધા ખાતામાં જમા થશે. પોસ્ટમેન દ્વારા ઘરબેઠાં જ આ રોકડ ઉપાડવાની સુવિધા પણ પ્રાપ્ત થશે. આ સુવિધાથી ગંગા સ્વરૂપા બહેનોને આર્થિક વ્યવહારોમાં વધુ સરળતા અને સુરક્ષા પ્રાપ્ત થશે.

સુધી વિશેષ અભિયાન ચલાવીને નવા IPPB ખાતાઓ ખોલવામાં આવશે.’ વધુમાં જણાવ્યું કે, ‘આ IPPB ખાતું શૂન્ય બેલેન્સથી ખોલી શકાશે. પોસ્ટમેન કે

ગ્રામીણ ડાક સેવક વિનંતી પર ઘરે આવીને ખાતું પણ ખોલી આપશે અને નાણાં પણ ચૂકવશે. લાભાર્થીઓએ પૈસા ઉપાડવા માટે બેંક કે પોસ્ટ ઓફિસ જવાની જરૂર રહેશે નહીં.

This advertisement is for information purposes only and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated November 12, 2025 (the ‘Letter of Offer’ or ‘LOF’), filed with the Securities and Exchange Board of India (‘SEBI’) and the stock exchanges, namely BSE Limited (‘BSE’) and National Stock Exchange of India Limited (‘NSE’) and together with ‘BSE’, ‘Stock Exchanges’).

adani

ADANI ENTERPRISES LIMITED

Registered and Corporate Office: Adani Corporate House, Shantigram, Near Vaishno Devi Circle, S.G. Highway, Khodiyar, Ahmedabad - 382 421, Gujarat, India. Tel: +91 79 2555 4412; Contact Person: Jatin Jalundhwala, Company Secretary and Compliance Officer E-mail: investor.ael@adani.com; Website: www.adanienterprises.com; Corporate Identity Number: L51100GJ1993PLC019067

NOTICE FOR PAYMENT OF OUTSTANDING FIRST CALL MONEY (IF ANY) AND SECOND AND FINAL CALL MONEY TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF ADANI ENTERPRISES LIMITED ("THE COMPANY") AS ON THE SECOND AND FINAL CALL RECORD DATE I.e. FRIDAY, FEBRUARY 13, 2026			
The Rights Issue Committee of the Board of Directors of the Company at its meeting held on Monday, February 9, 2026, has approved and fixed Friday, February 13, 2026 as the record date ("Second and Final Call Record Date") for the purpose of determining the eligible equity shareholders of partly paid-up equity shares ("Eligible Shareholders") to whom the notice for the Second and Final Call (the "Second and Final Call Notice"), is being sent. The record date for Second and Final Call Notice has been intimated to the BSE Limited ("BSE") and the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") (together, the "Stock Exchanges") on Monday, February 9, 2026.			
Accordingly, in terms of provisions of Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant rules made thereunder and the Letter of Offer, the notice for reminder to pay the outstanding First Call Money and for payment of the Second and Final Call Money ("Reminder cum Second and Final Call Notice") and the Second and Final Call Notice along with the detailed instructions, ASBA form and payment slip, has been sent in electronic mode to the holder of partly paid-up equity shares ("Eligible Shareholders") whose e-mail addresses are registered with Company or its Registrar and Transfer Agent ("RTA") or Depository Participant ("DP") as on the Second and Final Call Record Date i.e. Friday, February 13, 2026. Further physical copy of Reminder cum Second and Final Call Notice and Second and Final Call Notice along with detailed instructions, ASBA Form and payment slip, have been sent through permitted modes of dispatch at the registered address of those Eligible Shareholders:			
a. who have not registered their e-mail address with the Company or its RTA or Depository Participant(s); or			
b. who have specifically registered their request for the hard copy of the same.			
The Company has completed the dispatch of the Reminder cum Second and Final Call Notice and Second and Final Call Notice on Monday, February 16, 2026. The specimen copy of the relevant Notices is also available on the website of the Company at www.adanienterprises.com and on the website of RTA at www.in.mnps.mufg.com			
The Second and Final Call Notice has been served as per the details given below:			
Amount Due	₹ 450.00 per Rights Equity Share (comprising ₹0.25 towards face value and ₹449.75 towards premium) i.e., 25% of the Issue Price of ₹1,800.00 per Rights Equity Share held by shareholders as on the Second and Final Call Record Date i.e. Friday, February 13, 2026.		
Second and Final Call Payment Period	From Monday, March 2, 2026	To Monday, March 16, 2026	Duration 15 days (both days inclusive)
Modes of Payment	(a) Online ASBA Through the website of the SCSBs ⁽¹⁾ (b) Physical ASBA By submitting physical application to the Designated Branch of SCSBs ⁽¹⁾ (c) Online Using the 3-in-1 online trading-demat-bank account whenever offered by brokers (d) Deposit of Cheque / Demand Draft with collection centres of State Bank of India (made payable to)		
	A) ADANI ENTERPRISES LIMITED-RIGHT ISSUE-CALL MONEY ACCOUNT-R * B) ADANI ENTERPRISES LIMITED-RIGHT ISSUE-CALL MONEY ACCOUNT-NR *		

For Resident Shareholders and Non-Residential shareholders	Ahmedabad: Devashish Complex, Near Popular Domain, Ahmedabad, Gujarat- 380015; Ahmedabad: Bhadra Ahmedabad, Gujarat- 380001; Ahmedabad: Kamdhenu Complex, Panjrapole, Ahmedabad- 380015; Ahmedabad: Sath Sangath Complex, Shivrangani Cross Road, Ahmedabad- 380015; Bangalore: #65, St. Marks Road, SBI LHO Compound, Bengaluru, Karnataka- 560001; Baroda: Neha Apartments, R C Dutt Road, Vadodara- 390007; Chandigarh: SCO 99-102, Sector- 8-C, Madhya Marg, Chandigarh- 160006; Chennai: No 1 Anchor Gate Building, Rajaji Salai Chennai, Chennai- 600001; Delhi: 11 Sansad Marg, New Delhi- 110001; Emakulam: J J Arcade, Desabhimani Junction, Alur, Emakulam- 682017; Hyderabad: Bank Street, Koli, Hyderabad- 500095; Hyderabad: Patny, Near Secunderabad Hpo, Hyderabad- 500003; Hyderabad: Hyderabad, Abids, Hyderabad- 500001; Jaipur: P.B.No. 72, Sangarini Gate, Jaipur, Rajasthan- 302003; Jaipur: Post Box No- 94, SMS Highway, Jaipur- 302003; Jaipur: Apex Mall, Tonk Road, Jaipur, Rajasthan- 302015; Jaipur: PB# 354, Shyam Anukampa, Jaipur, Rajasthan- 302001; Kerala: T 25/641, Sree Ganesh Kripa, Thiruvadanthapuram- 695014; Kolkata: Samridhi Bhawan, Kolkata, West Bengal- 700001; Kolkata: Block C, Samridhi Bhawan, 1, Strand Road, Kolkata- 700001; Mumbai: 3rd Floor, SBI Mumbai Main Branch Building, Fort, Mumbai- 400023; Pune: Collector Office Compound, Dr Ambedkar Road, Pune- 411001; Rajkot: King's Plaza, Astron Chowk, Rajkot, Gujarat- 360001; Surat: Chowk Bazaar, Near Surat Fort, Surat- 395001.
	Please note that Eligible Shareholders who have not paid the First Call Money can pay the First Call Money, along with the Second and Final Call Money, between Monday, March 2, 2026 and Monday, March 16, 2026 (both days inclusive) through cheque / demand draft, the payment slip (stating Full Name of the Sole/First shareholder, Permanent Account Number, Reminder cum Second and Final Call Notice No. / Second and Final Call Notice No. (as applicable), DP ID-Client ID/Folio No., and No. of partly paid-up equity shares held & total amount payable.) along with the amount payable by cheque or demand draft must be presented at State Bank of India branches at the following locations on or before Monday, March 16, 2026:

Eligible Shareholders residing at locations where the ASBA facility or Bank's collection centres are not available, may send their outstanding First Call Money (if any) and Second and Final Call Money along with the completed payment slip by registered post/speed post at the office of the Registrar to the issue: MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited), C-101, Embassy 247, 1st Floor, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Maharashtra, India. Tel No.: +91 810 811 4949, stating the requisite details along with Cheque/Demand Draft payable at Mumbai, such that the same are received on or before the last date of payment of the Second and Final Call Money i.e. Monday, March 16, 2026.

Eligible Shareholders are required to make payment of the outstanding First Call Money (if any) and Second and Final Call Money on or before Monday, March 16, 2026. Please also note the consequences of failure to pay outstanding First Call Money (if any) and Second and Final Call Money are given below:

(a) The Company shall be entitled to deduct from any future dividend payable to you, all sums of money outstanding on account of calls due thereon in relation to the partly paid-up equity shares of the Company; and

(b) The partly paid-up equity shares of the Company currently held by you, including the amount already paid thereon may be liable to be forfeited on failure to pay the First Call Money and Second and Final Call Money, in accordance with the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer.

- Eligible Shareholders may also note that:
- Please note that the trading of ₹0.75 partly paid-up equity shares of the Company (ISIN: IN923A01048) has been suspended on the Stock Exchanges with effect from close of trading hours on Thursday, February 12, 2026 on account of the Second and Final Call.
 - Please refer to the FAQs available on the website of the Company at www.adanienterprises.com or on the website of the RTA at www.in.mnps.mufg.com. You may also seek clarifications on any query related to the payment of outstanding First Call Money (if any) and Second and Final Call Money on the toll-free number +91 810 811 4949 (Operational from Monday to Saturday from 9 AM to 5 PM) / E-mail us on adanienterprises.callmoney@in.mnps.mufg.com; and get your queries addressed.
 - In case of non-receipt of the Reminder cum Second and Final Call Notice / Second and Final Call Notice, Eligible Shareholders can request by e-mail or letter, for the duplicate Notice as applicable, to the RTA or may also download the same from the Company's website: www.adanienterprises.com or the RTA's website: https://web.in.mnps.mufg.com/client-downloads.html
 - All Eligible Shareholders must mention in the Application, his/her PAN number allotted under the Income Tax Act, 1961. Applications without PAN will be considered incomplete and are liable to be rejected.
 - Eligible Shareholders must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with the notification dated 13th February, 2020, issued by Central Board of Direct Taxes and press release dated 25th June, 2021 and 17th September, 2021.
 - Eligible Shareholders residing at locations where the ASBA facility or Bank's collection centers are not available, may send their outstanding First Call Money (if any) and Second and Final Call Money along with the completed Payment Slip by registered post/speed post at the office of the Registrar: MUFG Intime India Private Limited stating the requisite details along with Cheque and Demand Draft payable at Mumbai, such that the same are received on or before the last date of payment of the outstanding First Call Money (if any) and Second and Final Call Money i.e., Monday, March 16, 2026.
 - Please note that this is the final call and there will be no further call with respect to the issue. Shares on which the call money remains unpaid will be liable to be forfeited in accordance with the Companies Act, 2013, Articles of Association of the Company and the Letter of Offer.
 - All capitalized terms not defined herein would have the same meaning as attributed to it in the Letter of Offer dated November 12, 2025.
- All correspondence in this regard may be addressed to RTA to the Issue at the below mentioned address:

	MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited) C-101, Embassy 247, 1st Floor, L.B.S Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra, India Tel: + 91 810811 14949; E-mail: adanienterprises.callmoney@in.mnps.mufg.com; Website: www.in.mnps.mufg.com; Investor grievance ID: adanienterprises.callmoney@in.mnps.mufg.com Contact person: Shanti Gopalakrishnan; SEBI Registration No.: INR00004058
	For ADANI ENTERPRISES LIMITED On behalf of Board of Directors Sd/- Jatin Jalundhwala Company Secretary and Compliance Officer
Place: Ahmedabad, Gujarat Date: Monday, February 16, 2026	